

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2014—आश्विन 18, शक 1936

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

जनपद पंचायत
परिशिष्ट-5 (ब)

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 8 मई 2014

क्र. 3816-पं.प्रकोष्ठ-पं.नि.-14.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 30 धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित खण्ड को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में, जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ, अर्थात्:—

सारणी

अनु- क्रमांक	खण्ड/जिला का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा ग्राम पंचायत के नाम	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जनपद पंचायत सांवेर	1	बिलोदा नायता, पानोड, सिमरोल, जामोदी	अ. जा.	7
		2	हिण्डोलिया, गुलावट, पंचोला, चितोड़ा	अ. ज. जा.	1
		3	बुढ़ानियापंथ, बालरिया	पिछड़ा वर्ग	6
		4	कायस्थखेड़ी, बड़ोदियाखान	महिला अ. जा.	4
		5	पोटलोद, खामोद अंजना	महिला अ.ज.जा.	0
		6	कुड़ाना, दर्जीकराड़िया	महिला पिछड़ा वर्ग	3
		7	गुरान, हतुनिया, कदवा	महिला सामान्य	6
		8	पुवाडीहप्पा, पुवाडीदाई, माकोडिया, बरलाई जागीर		
		9	टाकुल, धतुरिया, बालोदा टाकुन, गवला		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		10	अजनोद, नागपुर, मण्डोट		
		11	खतेड़िया-बजात, पिपलिया-कायस्थ, कांकरियापाल, हरियाखेड़ी		
		12	बुढीबरलाई, पीरकराड़िया		
		13	ब्राम्हणपिपलिया, टोडी, धनखेड़ी		
		14	कटक्या, सौलसिन्दा, बघाना		
		15	बजरंग पाडलिया, रिगनोदिया, पंचडेरिया		
		16	जिंदाखेड़ा, जम्बूडीसरवर, बसान्द्रा, खजुरिया		
		17	लसुड़िया परमार, ढाबली, रामपिपल्या		
		18	मण्डलावदा, फरसपुर, व्यासखेड़ी, पलासिया		
		19	कदवालीबुजुर्ग, सुलाखेड़ी, कदवालीखुर्द, डकाच्या		
		20	मांगलिया सड़क		
		21	मगरखेड़ा, अलवासा, भांग्या		
		22	कांकरियाबोर्डिया, माताबरोड़ी, बदरखा		
		23	पालिया, मुरादपुरा		
		24	कजलाना, तराना, राजोदा		
		25	कछालिया, खलखला, बलधारा.		

आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर.

इन्दौर, दिनांक 8 मई 2014

क्र. 3816-पं.प्रकोष्ठ-पं.नि.-14.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 30 धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित खण्ड को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में, जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ, अर्थात्:—

सारणी

अनु- क्रमांक	खण्ड/जिला का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण	
				निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)	प्रवर्ग	संख्या
				(5)	(6)
1	जनपद पंचायत इन्दौर	1	शिवनी, गेहली	अ. जा.	5
		2	पेडमी, सेमलिया रायमल, खण्डेल	अ. ज. जा.	4
		3	तिल्लौरखुर्द, तिल्लौरबुजुर्ग	पिछड़ा वर्ग	6
		4	पिपल्दा, काचरोट	महिला अ. जा.	3
		5	पिवड़ा, सोनवाय	महिला अ.ज.जा.	2
		6	कम्पेल	महिला पिछड़ा वर्ग	3
		7	मोरादहाट, बावल्याखुर्द, अरन्या, गोगाखेड़ी	महिला सामान्य	5
		8	खुडैल बुजुर्ग, खुडैलखुर्द, काजीपलासिया		
		9	गारिया, सेमलयाचाऊ, हरनखेड़ी, खातीपिपल्या		
		10	दुधिया, बड़ियाकिमा		
		11	असरावद बुजुर्ग, गारीपिपल्या		
		12	सिंधीबरोदा, जामनियाखुर्द, धमनाय, मुण्डलादोस्दार		
		13	बुरानाखेड़ी, बेगमखेड़ी, चौहानखेड़ी, बिसनखेड़ा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		14	झलारिया, पानोड़, कैलोदहाला		
		15	सनावदिया, बिहाड़िया, उमरियाखुर्द, देवगुराड़िया		
		16	मोरोद, माचला, उमरीखेड़ा		
		17	असरावदखुर्द, रालामण्डल, मिर्जापुर		
		18	रंगवासा, नरलाय		
		19	सिंदोड़ा, कलारिया		
		20	सिंहासा, नावथापंथ		
		21	नैनोद, जम्बुर्डीहप्पी		
		22	बांक		
		23	बिसनावदा, रिजलाय		
		24	बड़ीकलमेर, रोजड़ी, फुलकराड़िया		
		25	लिम्बोदागारी, बुढ़ानिया.		

आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर.

इन्दौर, दिनांक 8 मई 2014

क्र. 3816-पं.प्रकोष्ठ-पं.नि.-14.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 30 धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित खण्ड को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में, जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ, अर्थात्:—

सारणी

अनु- क्रमांक	खण्ड/जिला का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जनपद पंचायत देपालपुर	1	गिरोता, फुलान, बहिरामपुर	अ. जा.	5
		2	पिरनलवासा, जलोदियाज्ञान, पाड़लिया, छड़ोदा	अ. ज. जा.	1
		3	तलावली, रलायता, बछोड़ा, अत्याना	पिछड़ा वर्ग	6
		4	धर्माट, चांदनखेड़ी, सुनाला, गुडर	महिला अ. जा.	3
		5	भीलबड़ौली, कटकोदा, कड़ोदा, काई, पितावली	महिला अ.ज.जा.	0
		6	बान्याखेड़ी, रूद्राख्या, करजोदा, देवराखेड़ी	महिला पिछड़ा वर्ग	3
		7	मेंढकवास, गोकलपुर, फरकोदा, सांतेर	महिला सामान्य	7
		8	खिमलावदा, अटाहेड़ा, जलालपुरा		
		9	बनेड़िया, बिरगोदा		
		10	जलोदियापार, भड़ोता, खटवाड़ी		
		11	शाहपुरा, नांद्रा, गंगाजलखेड़ी, सुमठा		
		12	लिम्बोदापार, सेमदा, अरोदाकोट, छोटी कलमेर		
		13	खजराया, खड़ी, चांदेर, बैगंदा, हरनासा		
		14	अहिरखेड़ी, आगरा, ऊषापुरा, अरन्या		
		15	मुरखेड़ा, बड़ोलीहोज, जलोदियापंथ, तकूपुरा, हसनाबाद		
		16	सिकन्द्री, कराड़िया, गोहान, गुलावट, आकासोदा		
		17	रोलाय, ललेण्डीपुरा, राजपुरा, पंथबरोड़िया, कालासुरा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		18	चटवाड़ा, नेवरी, अटावदा, रंगवासा, अजंदा		
		19	चिकलोण्डा, सगड़ोद, शिवगढ़		
		20	दौलताबाद, सेजवानी, रावद, सनावदा, रामबड़ोदिया		
		21	घाटाबिल्लोद, कालीबिल्लोद, रणमलबिल्लोद, सलमपुर		
		22	पीरपिपल्या, झलारिया, मेड़वाड़ा, सांगवी		
		23	माचल चिराखान, बजरंगपुरा, बिजेपुर		
		24	बोरिया, बोरसी, औरंगपुरा, गलोण्डा		
		25	धरावरा, धन्नड़, बगोदा.		

आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर.

इन्दौर, दिनांक 8 मई 2014

क्र. 3816-पं.प्रकोष्ठ-पं.नि.-14.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 30 धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित खण्ड को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में, जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ, अर्थात्:—

सारणी

अनु- क्रमांक	खण्ड/जिला का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जनपद पंचायत महू	1	भैंसलाय, सोनवाय, पिंगडम्बर	अ. जा.	3
		2	नावदा, उमरिया, हरनियाखेड़ी	अ. ज. जा.	8
		3	हरसोला	पिछड़ा वर्ग	6
		4	दतोदा	महिला अ. जा.	2
		5	जोशी गुराड़िया, शिवनगर, घोषीखेड़ा	महिला अ.ज.जा.	4
		6	सिमरोल	महिला पिछड़ा वर्ग	3
		7	चोरल, गवालू, सेण्डल, कुलथाना	महिला सामान्य	4
		8	कालाकुण्ड, पिपलिया, जामबुजुर्ग, राजपुरा		
		9	आम्बाचंदन, मेंमदी, बाई		
		10	गुजरखेड़ा, नेरुगुराड़िया		
		11	किशनगंज, कवटी		
		12	भाटखेड़ी, बंजारी, टीही, केशरबडीं		
		13	गवलीपलासिया		
		14	कोदरिया		
		15	भगोरा, चोरड़िया		
		16	बड़गोंदा, बेरछा, मलेण्डी		
		17	डोंगरगांव, गांगलियाखेड़ी, कैलोद, आकवी		
		18	भिचौली, कुवाली, यशवंतनगर, कांकरिया, नांदेड़		
		19	अवलाय, सितापाट, जामली, पांजरिया		
		20	कमदपुर, फफुंद, सिलोटिया		
		21	हासलपुर, राजपुरा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		22	सिंहोद, जाफराबाद, जाकुखेड़ी, दुर्जनपुरा		
		23	नाहरखेड़ी, गोकल्याकुण्ड, कालीकिराय, कोलानी, शेरपुर, रामपरियाखुर्द		
		24	खुर्दा, खुर्दी, छपरिया		
		25	मेण, जामखुर्द, मांगलिया, बसीपिपरी.		

आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर.

इन्दौर, दिनांक 8 मई 2014

क्र. 3815-पं.प्रकोष्ठ-पं.नि.-14.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 30 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित जिला पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में, जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ, अर्थात्:—

सारणी

अनु- क्रमांक	खण्ड/जिला का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	जिला-इन्दौर	1	कैलोद हाला, पानोड़, बिसनखेड़ा, खातीपिपल्या, बुरानाखेड़ी, बैगमखेड़ी, चौहानखेड़ी, सेमलियाचाऊ, झलारिया, हरनखेड़ी, खुडैलखुर्द, खुडैलबुजुर्ग, गोगाखेड़ी, बावल्याखुर्द, अरनिया, काजीपलासिया, सिंधीबरोदा, असरावदबुजुर्ग, गारीपिपल्या, गारिया.	अ. जा. अ. ज. जा. पिछड़ा वर्ग महिला अ. जा. महिला अ.ज.जा. महिला पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	3 3 4 2 2 2 3
2	जिला-इन्दौर	2	मोरोदहाट, सोनवाय, कंपेल, पिपलदा, पेडमी, गेहली, शिवनी, सेमल्यारायमल, खण्डेल, मुडिलादोस्तदार, उमरियाखुर्द जामन्याखुर्द, काचरोट, पिवड़ा, धमनाय.		
3	जिला-इन्दौर	3	देवगुराड़िया, रालामण्डल, तिल्लौरखुर्द, तिल्लौरबुजुर्ग, सनावदिया, बिहाड़िया मिर्जापुर, असरादखुर्द, मोरोद, माचला, उमरीखेड़ा, रंगवासा, नरलाय, सिंदोड़ा, दुधिया, बड़ियाकिमा.		
4	जिला-इन्दौर	4	सिंहासा, बांक, बिसनावदा, नैनोद, जम्बुड़ीहप्पी बड़ीकलमेर, लिम्बोदागारी, बुढ़ानिया, रोजड़ी, फुलकराड़िया नावदापंथ, रिजलाय, कलारिया.		
5	जिला-इन्दौर	5	भैंसलाय, टीही, भाटखेड़ी, बंजारी, अवलाय पांजरिया, सितापाट, फणुंद, कमदपुर, सिलोटिया, जाकू खेड़ी (खेड़ी) सिंहोद, दुर्जनपुराकोलानी, यशवंतनगर, हासलपुर, राजपुराकुटी, कुवाली.		
6	जिला-इन्दौर	6	गवलीपलासिया, कैलोद, बेरछा, भिचोली, बड़गोंदा, मेण, खुर्दी, खुर्दा, नाहरखेड़ी, गोकल्याकुण्ड, कालीकिराय, रामपुरियाखुर्द, शेरपुर, जाफराबाद, कांकरिया, छपरिया.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	जिला-इन्दौर	7	कोदरिया, मलेण्डी, बसीपिपरी, मांगलिया, पिपलिया, जामबुजुर्ग, गांगलियाखेड़ी, चोरड़िया, डोंगरगांव, गुजरखेड़ा, आकवी, केशरबर्डी, जामली, नांदेड़, जामखुर्द.		
8	जिला-इन्दौर	8	जोशीगुराड़िया, शिवनगर, घोषीखेड़ा, सिमरोल, बाई, सेण्डल, चोरल, गवालू, कुलथाना, कालाकुण्ड, राजपुरा (उमठ), मेंमदी, आमबाचंदन, भगोरा, नेरुगुराड़िया.		
9	जिला-इन्दौर	9	पिगडम्बर, सोनवाय, नावदा, हरसोला, दतोदा, उमरिया, हरनियाखेड़ी, कवटी, सांतेर.		
10	जिला-इन्दौर	10	बुढानियापंथ, पोटलोद, खामोदआंजना, बालरिया, चितौडा, नागपुर, मण्डोट, टाकुन, पंचोला, हिडोलिया, गुलावट, खलखला, बलधारा, कछालिया, अजनोद, खतेडियाबज्जात, हरियाखेडी, गवला, बालोदा टाकून.		
11	जिला-इन्दौर	11	पालिया हैदर, माताबडोडी, बघाना, काकरियाबोर्डिया, खजूरिया, बदरखां जम्बुडी सरवर, बसान्द्रा, जिन्दाखेडा, धतुरिया, अलवासा, मुरादपुरा, पिपल्या कायस्थ काकरिया पाल, धनखेडी, बजरंग पाडलिया, मगरखेडा, रिगनोदिया, पंचडेरिया, भाग्या.		
12	जिला-इन्दौर	12	कुडाना, बिलोदा नायता, जामोदी, पानोड गुरान, दर्जी कराडिया, सिमरोल, सोलसिन्दा, हतुनिया, बरलई जागीर, ब्राम्हण पिपल्या, कदवा बडोदियाखान, कायस्थ खेडी, कटक्या राजोदा, कजलाना, तराना.		
13	जिला-इन्दौर	13	मांगल्या सड़क, डाबली, सुलाखेडी, कदवालीबुजुर्ग, कदवालीखुर्द, फरसपुर, व्यासखेडी, डकात्या, लसूडियापरमार, मंडावदा, पिरकराडिया, बुढीबरलई, मकोंडिया, पुर्वाडाहप्पा, पुर्वाडादाई, पलासिया, रामपिपल्या, टोडी.		
14	जिला-इन्दौर	14	धन्नड, बगोदा, चिराखान, धरावरा, माचल, ग्लौण्डा, औरंगपुरा, बोर्सी, बोरिया, रोलाय, पंथबडोदिया, गुलावट, सिकन्द्री, उषापुरा, गंगाजलखेडी, सूमठा, शाहपुरा, बान्याखेडी, कराडिया, आगरा, अहिरखेड़ी, अरन्या, आकासोदा, राजपुरा, ललेण्डीपुरा, बजरंगपुरा, बिजेपुर, कालासूरा.		
15	जिला-इन्दौर	15	सांगवी, मेढवाडा, घाटाबिल्लोद, रामबडोदिया, झलारिया, पिरपिपल्या, रणमलबिल्लौद, काली बिल्लौद, सलमपुर, रावद, सेजवानी, दौलताबाद, रंगवासा, चिंकलौण्डा, शिवगढ़, सगडोद, सनावदा, अटावदा, गोहान, अजन्दा.		
16	जिला-इन्दौर	16	चटवाड़ा, नेवरी, मूरखेडा, जलोदियापंथ, हसनाबाद, चान्देर, बेंगदा, अरोदाकोट, छोटी कलमेर, खडी, खजराया, सेंमदा, लिम्बोदापार, खटवाडी, बडोलीहोज, भिडोता, जलोदियापार, सातेंर, बिरगोदा, हरनासा, तक्रीपुरा, गोकुलपुर, नान्द्रा, अत्याणा, बछोडा, रलायता, फरकोदा.		
17	जिला-इन्दौर	17	गिरोता, फूलान, बहिरामपुर, पिरनलवासा, जलोदियाज्ञान, धर्मट, पाडल्या, तलावली, छडोदा, भिलबडोली, गूडर, सुनाला, कडोदा, चान्दनखेडी, रूदाख्या, करजोदा, काई, कटकोदा, मेढकवास, अटाहेडा, देवराखेडी, पितावली, खिमलावदा, बनेडिया, जलालपुरा.		

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत), जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2014

क्र. 648-स्थानीय निर्वाचन-2014.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 411, भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2014 में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा भोपाल जिले की 8 ग्राम पंचायतों के 20 ग्राम के क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में शामिल किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है, उल्लेखनीय है कि दिनांक 6 सितम्बर 2014 को प्रकाशित अधिसूचना एवं दिनांक 9 सितम्बर 2014 को प्रकाशित जाहिर सूचना के क्रम में प्राप्त दावे/आपत्तियों का निराकरण पश्चात् मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 405 की उपधारा (3) के तहत राज्यपाल द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी, अधिसूचना जारी की गई है। उक्त अधिसूचना के क्रम में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 126 के तहत मैं, निशांत वरवड़े, कलेक्टर, जिला भोपाल, निम्न ग्राम पंचायतों एवं उनमें सम्मिलित ग्रामों को भोपाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से विस्थापित किए जाने की अधिसूचना अनुसूची में प्रकाशित करता हूँ :-

अनुसूची

क्र. (1)	विस्थापित की जाने वाली ग्राम पंचायत (2)	विस्थापित किए जाने वाले ग्राम (3)	तहसील (4)	विस्थापित किए जाने वाले क्षेत्र (हेक्टेयर में) (5)
1	रापड़िया	1. रापड़िया 2. कटारा 3. बर्राई 4. बगली	हुजूर	459.960 415.620 449.530 215.810
2	कोलूखेड़ी	5. कोलूखेड़ी	हुजूर	486.600
3	छान	6. छान 7. मक्सी 8. पिपलियाकुंजनगढ़ 9. भैरोपुर	हुजूर	303.610 148.519 163.980 228.440
4	भौरी	10. भौरी 11. जमोनिया छीर 12. मीरपुर वीरान	हुजूर	1484.600 244.230 216.110
5	दीपड़ी	13. दीपड़ी 14. समरधा कलियासोत	हुजूर	522.070 324.610
6	रतनपुर सड़क	15. रतनपुर सड़क 16. नरेला हनुमंत 17. बिलखिरिया खुर्द 18. गुराड़ीघाट	हुजूर	522.970 276.610 163.350 284.160
7	नीलबड़	19. नीलबड़	हुजूर	284.110
8	लांबाखेड़ा	20. लांबाखेड़ा	हुजूर	540.450

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2014

क्र. 703-स्था. निर्वा.-2014.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 11 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिक निगम, भोपाल, जिला भोपाल के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

अनुसूची

स.क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1	अनुसूचित जाति (मुक्त) कुल वार्ड संख्या 06	10	ईदगाह हिल्स
		28	रानी अवन्ती बाई
		49	आशा निकेतन
		53	बरकतउल्ला
		76	छोला
		81	कान्हा कुंज
2	अनु. जाति (महिला) कुल वार्ड संख्या 06	11	बाबू जगजीवन राम
		47	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
		48	अरेरा कालोनी
		50	भरत नगर
		59	बरखेड़ा बी.एच.ई.एल.
		63	गौतम बुद्ध
3	अनु. जनजाति (मुक्त) कुल वार्ड संख्या 01	26	डॉ. अम्बेडकर
4	अनु. जनजाति (महिला) कुल वार्ड संख्या 01	85	कटारा
5	अन्य पि. वर्ग (मुक्त) कुल वार्ड संख्या 10	1	महात्मा गांधी
		2	एयरपोर्ट
		3	भौरी
		6	महावीर गिरी
		8	रायल मार्केट
		15	जे. पी. नगर
		21	जैन मंदिर
		33	पं. मदन मोहन मालवीय
		44	सुभाष चन्द्र बोस
		52	मिसरोद
6	अन्य पि. वर्ग (महिला) कुल वार्ड संख्या 11	4	हेमू कालानी
		9	बाग मुंशी हुसैन खां
		25	स्वामी विवेकानन्द
		32	जवाहरलाल नेहरू
		36	चांदबड़

(1)	(2)	(3)	(4)
		37	कपड़ा मिल
		42	महारानी लक्ष्मी बाई
		43	महाराणा प्रताप
		61	खजूरी कलां
		65	गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र
		69	गुरुनानक देव
7	अनारक्षित (महिला) कुल वार्ड संख्या 24	5	साधू वासवानी
		12	गुफा मंदिर
		14	शाहजहांनाबाद
		17	इब्राहिम गंज
		19	लाल बहादुर शास्त्री
		20	महावीर स्वामी
		23	इस्लामपुरा
		27	गोस्वामी तुलसीदास
		30	कुशाभारु ठाकरे
		35	जहांगीराबाद
		41	बाग फरहत अफजा
		46	पं. रविशंकर शुक्ल
		51	शाहपुरा
		55	बाग मुंगालिया
		56	बरखेड़ा पठानी
		57	साकेत शक्ति
		58	कस्तूरबा
		67	इन्द्रपुरी
		70	पंजाबी बाग
		75	बड़वई
		77	रुसल्ली
		78	नवीबाग
		82	दामखेड़ा
		84	रतनपुर सड़क

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी.